



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 459]

नई दिल्ली, रविवार, अक्तूबर 16, 1983/अश्विन 24, 1905

No. 459]

NEW DELHI, SUNDAY, OCTOBER 16, 1983/ASHVINA 24, 1905

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

वित्त मंत्रालय

MINISTRY OF FINANCE

(आर्थिक कार्य विभाग)

(Department of Economic Affairs)

(बैंकिंग प्रभाग)

(Banking Division)

अधिसूचनाएं

NOTIFICATIONS

नई दिल्ली, 15 अक्तूबर, 1983

New Delhi, 15th October, 1983

का० आ० 735 (अ).— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधि-
नियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा
(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय
सरकार, सेंट्रल बैंक आफ इंडिया के अनुरोध पर 16
अक्तूबर, 1983 से महाराष्ट्र राज्य में अकोला ग्रामीण
बैंक के नाम से एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना करती
है जो कि महाराष्ट्र राज्य के अकोला जिले की स्थानीय
सीमाओं में कार्य करेगा।

S.O. 735(E).—In exercise of the powers conferred
by sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural
Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Govern-
ment, on being requested so to do by Central Bank
of India, establishes, with effect from the 16th Octo-
ber, 1983 a Regional Rural Bank in the State of
Maharashtra under the name of Akola Gramin Bank
which shall operate within the local limits of the Dis-
trict of Akola in the State of Maharashtra.

[संख्या एफ० 1-(7)/83 आर०आर० बी०(I)]

[No. F. 1-(7)/83-RRB(I)]

का० आ० 736 (अ):—प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार भारतीय रिजर्व बैंक तथा अकोला ग्रामीण बैंक के प्रायोजिक सेंट्रल बैंक आफ इंडिया से परामर्श करके, अकोला को उस स्थान के रूप में निर्धारित करती है, जहाँ पर अकोला ग्रामीण बैंक का मुख्य कार्यालय होगा।

[संख्या एफ० 1-(7)/83-आर० आर बी० (II)]

S.O. 736(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976), the Central Government, after consultation with the Reserve Bank of India and Central Bank of India by which Akola Gramin Bank has been sponsored, specifies Akola as the place where Akola Gramin Bank shall have its head office.

[No. F. 1-7/83-R R B (II)]

का० आ० 737 (अ) :— भारतीय रिजर्व बैंक, अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की उपधारा (6) के खंड (क) के उपखंड (III) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार एतद्वारा उक्त उपखंड के प्रयोजनों के लिए, अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला को प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 3 की उपधारा (1) के अंतर्गत स्थापित एक संस्था के रूप में अधिसूचित करती है।

[सं० एफ० 1-7/83 आर० आर० बी० (III)]

S.O. 737(E).—In pursuance of sub-clause (iii) of clause (a) of sub-section (6) of section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Central Government hereby notifies, for the purposes of the said sub-clause, Akola Gramin Bank, Akola being an institution established under sub-section (1) of section 3 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976).

[No. F. 1-7/83-RRB(III)]

का० आ० 738 (अ) :— प्रादेशिक ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (1976 का 21) की धारा 11 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा श्री आर० आर० फडतारे को अकोला ग्रामीण बैंक, अकोला का अध्यक्ष नियुक्त करती है तथा 16-10-1983 से प्रारम्भ होकर 30-10-1986 को

समाप्त होने वाली अवधि को उस अवधि के रूप में निर्धारित करती है जिसके दौरान श्री आर० आर० फडतारे अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगी।

[सं० एफ० 1-7/83-आर० आर० बी० (IV)]

अशोक चन्द्र, संयुक्त सचिव

S.O. 738(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Regional Rural Banks Act, 1976 (21 of 1976) the Central Government hereby appoints Shri R. R. Phadtare as Chairman of the Akola Gramin, Bank Akola and specifies the period commencing on the 16-10-1983 and ending with the 30-10-1986 as the period for which the said Shri R. R. Phadtare shall hold office as such Chairman.

[No. 1-7/83-RRB(IV)]

ASHOK CHANDRA, Jt. Secy.

भारतीय रिजर्व बैंक

(ग्रामीण आयोजना तथा ऋण कक्ष)

बम्बई, 16 अक्टूबर, 1983

का० आ० 739 (अ):— भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 42 की, उपधारा (6) के खण्ड (क) के अनुसरण में, भारतीय रिजर्व बैंक एतद्वारा निदेश देता है कि उक्त अधिनियम की दूसरी अनुसूची में निम्नलिखित बैंक को समाविष्ट किया जाये, अर्थात्:-

“अकोला ग्रामीण बैंक अकोला, महाराष्ट्र”

[आर० पी० सी० डी० सं० 268/आई०एन०सी०एन०/311-83]

एच० बी० शिवमग्गी, कार्यकारी निदेशक

RESERVE BANK OF INDIA

(Rural Planning And Credit Department)

Bombay, the 16th October, 1983

S.O. 739(E).—In pursuance of clause (a) sub-section (6) of Section 42 of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934), the Reserve Bank of India hereby directs the inclusion in the Second Schedule to the said Act of the following bank, namely :

“Akola Gramin Bank, Akola (Maharashtra)”.

[RPCD No. 268/INCL/311-83]

H. B. SHIVAMAGGI, Executive Director